







### «Кто больше знает?»

«Кто больше знает?» — это не только игра, но и способ проверить свои знания. Вопросы могут касаться истории, географии, науки и искусства.

Вопросы: 1. Кто из великих русских поэтов написал «Война и мир»? 2. В какой стране находится Великая Китайская стена? 3. Кто изобрел электрическую лампочку?

Ответы: 1. Лев Толстой. 2. Китай. 3. Томас Эдисон.

### «Кто больше знает?»

Вопросы: 1. В каком году началась Вторая мировая война? 2. Кто является автором романа «Доктор Живago»? 3. Какой химический элемент обозначается символом Fe?

Ответы: 1. 1939-1945 гг. 2. Михаил Булгаков. 3. Железо.

Вопросы: 1. Как называется столица Австралии? 2. Кто из русских писателей написал «Мертвые души»? 3. В каком году был изобретен автомобиль?

Ответы: 1. Канберра. 2. Николай Гоголь. 3. 1789 г.

# «Кто больше знает?»

Вопросы: 1. Кто из русских поэтов написал «Маяковские стихи»? 2. В какой стране находится озеро Байкал? 3. Кто изобрел радио?

Ответы: 1. Владимир Маяковский. 2. Россия. 3. Гульельмо Марconi.

## «Кто больше знает?»

Вопросы: 1. Кто из великих русских художников написал «Иван Грозный»? 2. В какой стране находится озеро Чад? 3. Кто изобрел телевизор?

Ответы: 1. Василий Суриков. 2. Африка. 3. Конрад Лоренц.

## «Кто больше знает?»

Вопросы: 1. Кто из русских поэтов написал «Сказка о царе Салтане»? 2. В какой стране находится озеро Ван? 3. Кто изобрел компьютер?

Ответы: 1. Александр Пушкин. 2. Армения. 3. Чарльз Бэббидж.

«Кто больше знает?» — это не только игра, но и способ проверить свои знания. Вопросы могут касаться истории, географии, науки и искусства.

Вопросы: 1. Кто из великих русских поэтов написал «Война и мир»? 2. В какой стране находится Великая Китайская стена?

Ответы: 1. Лев Толстой. 2. Китай.

Вопросы: 1. В каком году началась Вторая мировая война? 2. Кто является автором романа «Доктор Живago»? 3. Какой химический элемент обозначается символом Fe?

Ответы: 1. 1939-1945 гг. 2. Михаил Булгаков. 3. Железо.

Вопросы: 1. Как называется столица Австралии? 2. Кто из русских писателей написал «Мертвые души»? 3. В каком году был изобретен автомобиль?

Ответы: 1. Канберра. 2. Николай Гоголь. 3. 1789 г.

Вопросы: 1. Кто из русских поэтов написал «Маяковские стихи»? 2. В какой стране находится озеро Байкал? 3. Кто изобрел радио?

Ответы: 1. Владимир Маяковский. 2. Россия. 3. Гульельмо Марconi.


## «Кто больше знает?»

Вопросы: 1. Кто из великих русских художников написал «Иван Грозный»? 2. В какой стране находится озеро Чад? 3. Кто изобрел телевизор?

Ответы: 1. Василий Суриков. 2. Африка. 3. Конрад Лоренц.

Вопросы: 1. Кто из русских поэтов написал «Сказка о царе Салтане»? 2. В какой стране находится озеро Ван? 3. Кто изобрел компьютер?

Ответы: 1. Александр Пушкин. 2. Армения. 3. Чарльз Бэббидж.



«Кто больше знает?» — это не только игра, но и способ проверить свои знания. Вопросы могут касаться истории, географии, науки и искусства.

Вопросы: 1. Кто из великих русских поэтов написал «Война и мир»? 2. В какой стране находится Великая Китайская стена?

Ответы: 1. Лев Толстой. 2. Китай.

Вопросы: 1. В каком году началась Вторая мировая война? 2. Кто является автором романа «Доктор Живago»? 3. Какой химический элемент обозначается символом Fe?

Ответы: 1. 1939-1945 гг. 2. Михаил Булгаков. 3. Железо.

Вопросы: 1. Как называется столица Австралии? 2. Кто из русских писателей написал «Мертвые души»? 3. В каком году был изобретен автомобиль?

Ответы: 1. Канберра. 2. Николай Гоголь. 3. 1789 г.



## «Кто больше знает?»

«Кто больше знает?» — это не только игра, но и способ проверить свои знания. Вопросы могут касаться истории, географии, науки и искусства.

Вопросы: 1. Кто из великих русских поэтов написал «Война и мир»? 2. В какой стране находится Великая Китайская стена?

Ответы: 1. Лев Толстой. 2. Китай.

Вопросы: 1. В каком году началась Вторая мировая война? 2. Кто является автором романа «Доктор Живago»? 3. Какой химический элемент обозначается символом Fe?

Ответы: 1. 1939-1945 гг. 2. Михаил Булгаков. 3. Железо.